

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †3159
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

- चुनौती प्रणाली के माध्यम से केरल में पर्यटक स्थलों का चुनाव
- †3159. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ः
- क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) आलप्पुझा और कोल्लम जिलों सहित केरल में केंद्रीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही पर्यटन परियोजनाओं की सूची क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषित चुनौती प्रणाली के माध्यम से विकसित किए जाने वाले पचास पर्यटन स्थलों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी स्थलों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का चुनौती प्रणाली के माध्यम से विकसित किए जाने वाले पचास पर्यटन स्थलों की सूची में पथिरमनल इको पर्यटन परियोजना को शामिल करने का विचार है;
- (घ) क्या सरकार आलप्पुझा जिले में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से आलप्पुझा मरीना-सह-पोर्ट परियोजना को विकसित करने के लिए केरल को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटक स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान सम्बन्धी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत केरल राज्य में पर्यटन सम्बन्धी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

केरल राज्य में उपरोक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है। तथापि पर्यटन मंत्रालय ने केरल के अलप्पुझा और कोल्लम जिले में उपरोक्त योजनाओं के तहत किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है।

(ख) और (ग): पर्यटन मंत्रालय ने बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन हेतु हितधारकों के उपयोगी इनपुट प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 3 मार्च, 2023 को 'मिशन मोड में पर्यटन के विकास' के सम्बन्ध में पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(घ) और (ड.): पर्यटन मंत्रालय की ऊपर उल्लिखित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार इन प्रस्तावों की जाँच की जाती है और निर्दिष्ट प्रावधानों की पूर्ति तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

अनुबंध

चुनौती प्रणाली के माध्यम से केरल में पर्यटक स्थलों का चुनाव के सम्बन्ध में दिनांक 20.03.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †3159 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	केरल	इको परिपथ 2015-16	पत्तनमतिट्टा - गावी - वागामोन - तेक्कडी का विकास	64.08	64.08
2.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	सबरीमाला - एरुमेली - पंपा - सन्नीधानम का विकास	54.88	27.44
3.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	श्री पद्मनाभ अर्नामुला का विकास	78.08	73.77
4.	केरल	ग्रामीण परिपथ 2018-19	मलानाड, मालाबार कूज पर्यटन परियोजना का विकास	57.35	23.77
5.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ 2018-19	सिवागिरि श्री नारायण गुरु आश्रम - अरुवीपुरम - कुन्नुमपारा श्री सुब्रामणिया - चेंबाझांती श्री नारायण गुरुकुलम का विकास	66.43	15.57

प्रशाद योजना

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	संस्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत	जारी की गई राशि
10	केरल	गुरुवायूर मंदिर का विकास	2016-17	45.19	45.19

पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजना

(करोड़ रु. में)

क्रं.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	केंद्रीय एजेंसी	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
वर्ष 2013-14					
6	केरल	रेल मंत्रालय के सहयोग से त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सुविधाओं का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	5.98	4.00
वर्ष 2016-17					
16	केरल	विलिंगडन द्वीप, कोचीन, केरल में वॉकवे/प्रोमेनेड का विकास	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	9.01	8.27
17	केरल	एर्नाकुलम घाट के बर्थ और बैकअप क्षेत्र के उन्नयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	21.41	19.13
19	केरल	भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एसएआई तिरुवनंतपुरम गोल्फ क्लब में गोल्फ कोर्स के उन्नयन के लिए परियोजना	भारतीय खेल प्राधिकरण	24.65	12.32
वर्ष 2018-19					
37	केरल	कोचीन पोर्ट क्रूज टर्मिनल में अवसंरचना का विकास करना।	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1.21	1.14
38	केरल	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट वॉकवे पर अतिरिक्त पर्यटन सुविधाओं का निर्माण	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	4.66	4.66
वर्ष 2019-20					
46	केरल	नए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट टर्मिनल में अतिरिक्त अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	10.30	8.23
